



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 अगस्त, 2024

श्रावण 21, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 1910/छ:-पु०-9-2024-1838946  
लखनऊ, 12 अगस्त, 2024

अधिसूचना  
(शक्ति)

प०आ०-214

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, प्रदेश के जनपदों के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (स्वकेंद्रों) में दिनांक 12 अगस्त, 2024 से दिनांक 17 अगस्त, 2024 तक सम्पन्न करायी जाने वाली प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा के दौरान प्रशिक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग तथा अन्य अवांछनीय घटनाओं के परिहार के लिए तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रदेश के परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों तथा प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दिनांक 12 अगस्त, 2024 से 17 अगस्त, 2024 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिनका प्रयोग वे अपने-अपने सम्बन्धित केन्द्रों की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,  
डा० संजीव गुप्ता,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1910/VI-P-9-2024-1838946, dated August 12, 2024:

No. 1910/VI-P-9-2024-1838946

*Dated Lucknow, August 12, 2024*

IN exercise of the powers under Section 15 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023), the Governor is pleased to appoint with effect from August 12, 2024 to August 17, 2024 all the Superintendents and Principals of the examination centers of Government/Private Industrial Training Institutes (Self centers) of districts of the State as Executive Magistrates for the practical Examination of all India Trade Test, August, 2024 (Annual System/Dual System of Training) for regular trainees of Government Industrial Training Institutes and affiliated Private Industrial Training Institutes, conducted by Rajya Vyavsayik Prashikshan Parishad, Uttar Pradesh, to be known as Executive Magistrates and to confer on them all such powers of Executive Magistrates for the areas within the limits of the respective centers of which they are Superintendents and Principals, which such Executive Magistrates have under the said Code.

By order,  
Dr. SANJEEV GUPTA,  
*Sachiv.*